

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) सीमा-शुल्क उप/सहायक आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE DEPUTY/ASSISTANT COMMISSIONER OF CUSTOMS नं. 66 बीच रोड़, तूतुकुडि NO 66, BEACH ROAD, THOOTHUKUDI -628 001</p> |  |
| <p>IS 15700 CERTIFIED COMMISSIONERATE</p> | <p style="text-align: center;">Email- cusdvnttn@gmail.com</p> | <p>Phone No. 0461- 2322214,2327116 & Fax No. 2325901</p> |

सी. सं.- C.No.VIII/48/34/2019-Disposal-II

दिनांक /Dated: 30.03.2025

TENDER – CUM – AUCTION NOTICE No. 02 /2024-25

कस्टम्स के उप-कमिश्नर, कस्टम्स प्रिवेंटिव डिवीजन, तूतुकुडि ने कस्टम्स के प्रमुख कमिश्नर, त्रिची की ओर से इस सूचना के अनुलग्नक में सूचीबद्ध सामान की नीलामी के लिए इच्छुक पक्षों से बंद निविदाएँ आमंत्रित की हैं, जो 09.04.2025 को 11.00 बजे आयोजित की जाएगी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन: Sealed Tenders are invited by the Deputy Commissioner of Customs, Customs Preventive Division, Tuticorin on behalf of the Principal Commissioner of Customs, Trichy from interested parties for the Auction of the goods listed in the Annexure to this Notice to be held at **11.00 hours on 09.04.2025** subject to the following conditions:

02. सामान्य कागज़ पर सील बंद निविदाएँ अलग से प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें प्रत्येक वस्तु के लिए परिशिष्ट में उल्लेखित सामान के अनुक्रमांक को दर्शाते हुए मूल्य का उल्लेख हो। निविदा मूल्य जीएसटी @ 18% और सभी अन्य लागू करों और उपकरणों को छोड़कर होना चाहिए, जहाँ भी लागू हो। Separate sealed Tenders on plain paper should be submitted quoting the price indicating the serial number of the goods mentioned in the Annexure for each item. The Tender price should be exclusive of GST @ 18% and all other applicable Taxes and cess, wherever applicable.

03. सीलड टेंडर जमा करते समय नकद के रूप में 10,000/- रुपये [सिर्फ दस हजार] की Earnest Money Deposit [EMD] जमा की जा सकती है। असफल टेंडरर से प्राप्त EMD राशि उन्हें 09.04.2025 को वापस की जाएगी। The Earnest Money Deposit [EMD] of **Rs 10,000/-** [Ten Thousand Only] in the form of Cash may be deposited at the time of submitting the Sealed Tender. The EMD amount received from unsuccessful Tenderers will be refunded to them on 09.04.2025 itself.

0

04. सील किए गए निविदाएं 08.04.2025 को 17.00 बजे तक तुतिकोरिन के कस्टम्स विभाग के उप आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त की जाएंगी और 09.04.2025 को 11.00 बजे निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी। यदि निविदा में कोई सुधार/पुनर्लेखन/अतिरिक्त या विलोपन हैं, तो इन्हें अस्वीकार किए जाने की संभावना है। Sealed Tenders will be received at the Office of the Deputy Commissioner of Customs, Customs Division, Tuticorin **up to 17.00 Hrs. on 08.04.2025** and will be opened in the presence of the Tenderers at **11.00 Hrs. on 09.04.2025** itself. If there are Corrections/over-writings/additions or deletions in the Tender the same are liable for rejection.

05. यदि निविदा मूल्य स्वीकार्य नहीं है, तो उसी दिन केवल निविदाकारों के बीच खुली नीलामी की जाएगी। If the Tender price is not acceptable, Open Auction among the Tenderers only will be conducted on the same day.

06. सामानों का निरीक्षण संभावित निविदाकर्ता द्वारा इस सूचना के परिशिष्ट-I के कॉलम 5 में दिए गए कार्यालय/स्थानों पर सामान्य कार्यालय समय में सभी कार्यदिवसों में 07.04.2025 को 17.00 घंटों तक किया जा सकता है। The goods may be inspected by the prospective Tenderers at the Office/places mentioned at Column 5 of the Annexure-I to this Notice during normal Office hours on all working days upto 17.00 Hrs. on 07.04.2025.

07. केवल उच्चतम बोली स्वीकार की जाएगी और सफल निविदाकर्ताओं/बोलीदाताओं को स्थान पर स्वीकृति के समय निविदा मूल्य/बोली राशि का 25% नकद भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जिसमें अस्थायी स्वीकृति शामिल है। शेष राशि और यदि कोई है, तो उस पर लागू जीएसटी और अधिभार को अंतिम स्वीकृति की तारीख की सूचना/नीलामी के सात दिनों के भीतर भुगतान करना होगा, अस्थायी स्वीकृति की स्थिति में, अन्यथा पहले से जमा किया गया 25% अग्रिम राशि बिना किसी नोटिस के सरकार को जब्त कर लिया जाएगा। बिक्री मूल्य के अलावा, लागू जीएसटी और उस पर लगने वाला कोई भी उपकर सफल निविदाकर्ताओं/बोलीदाताओं द्वारा भुगतान किया जाएगा। Only the highest bid will be accepted and the successful Tenderers/Bidders shall be required to pay 25% of the Tender value/Bid amount by Cash on the spot on acceptance, including provisional acceptance. The remaining amount with appropriate GST and Surcharge thereon, if any, has to be paid within seven days of the date auction/intimation of final acceptance, in case of provisional acceptance failing which the 25% advance amount already collected will be forfeited to Government without any notice. Apart from the sale value, applicable GST and cess thereon, if any, that may be levied shall be payable by the successful Tenderers/Bidders.

08. सामान हर तरह से बोलीदाता के जोखिम पर विभाग की देखरेख में रहेगा, स्वीकृति की तिथि से, जिसमें बोली की अस्थायी स्वीकृति भी शामिल है, और सरकार सुरक्षित देखभाल या उसकी संरक्षा के लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता में नहीं होगी, स्वीकृति की तिथि से जिसमें अस्थायी स्वीकृति शामिल है। The goods shall remain in the custody of the Department in every respect at the risk of the Bidder from the date of acceptance, including provisional acceptance of the bid and the Government shall not be under any obligation for safe custody or the preservation there from the date of acceptance including provisional acceptance.

09 जब विक्रेता द्वारा किसी अप्रत्याशित कारणों से बोली के स्वीकार करने के बाद खरीददार को सामान का वितरण नहीं किया जाता है, तो वह किसी भी हानि, नुकसान/लाभ या मुआवजे के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। When the purchaser is not given delivery of the goods for any unforeseen reasons after acceptance of bid, he shall not be entitled to make any claim for damage, loss/profit or compensation on any account.


10 जब भी किसी नीलामी बिक्री के तहत खरीदार के खिलाफ सरकार को धनराशि के भुगतान के लिए कोई दावा उत्पन्न होता है, तो सरकार को किसी अन्य उपाय के प्रति बिना पूर्वाग्रह के ऐसे धनराशि को किसी भी समय बाद में खरीदार के साथ सरकार के किसी भी अनुबंध के तहत देय किसी भी धनराशि से कटौती करने का अधिकार होगा और यह पूरी वसूल की जाने वाली राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खरीदारों को मांग पर सरकार को बाकी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। Whenever any claim for the payment of sum of money to the Government arises out of or under auction sale against the buyer, the Government shall without prejudice to any other remedy, be entitled to deduct such sum of money at any time thereafter from any sum that may become due to the buyer under any contract with the Government and this is not sufficient to cover the full amount recoverable. The buyers shall pay to the Government on demand the balance remaining due.

11. सभी विवाद जो विक्रय के लिए समझौते से उत्पन्न होते हैं या किसी भी तरह से संबंधित होते हैं, को कस्टम्स कमिश्नर, नं. 1, विलियम्स रोड, कैंटोनमेंट, त्रिची या उनके द्वारा नामांकित किसी व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा। यह आपत्ति नहीं की जाएगी कि मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है जिसे सभी या किसी अन्य विवाद में निपटना था। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। All disputes arising out of or in any way touching or concerning the agreement for sales whatsoever shall be referred to the sole arbitration of the Commissioner of Customs, No. 1, Williams Road, Cantonment, Trichy or any person nominated by him. It shall not be objected that the arbitrator is a Government servant that he had to deal with all or any other matter in dispute. The decision of such arbitrator shall be final and binding on parties to the agreement.

12. विभाग किसी भी या सभी निविदाओं/बोलीों को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। विभाग बिना किसी कारण बताए निविदा/नीलामी से किसी भी या सभी वस्तुओं को वापस लेने का भी अधिकार रखता है। इस संबंध में उप आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। The department reserves the right to reject any or on all Tenders/Bids without assigning reasons thereof. The Department also reserves the right to withdraw any or all goods from the Tender/Auction without assigning any reasons. The decision of the Deputy Commissioner will be final in this regard.

13. सामानों की बिक्री पूरी तरह से 'जैसा है, जहाँ है' की शर्त पर है। सामानों को सभी दोषों या विवरण में त्रुटियों, मात्रा, आकार, माप संख्या, वजन के साथ स्थान से लिया जाएगा, जैसे कि लॉट में वर्णित है। कोई वारंटी या गारंटी नहीं दी जाएगी। उपरोक्त सामानों को इस धारणा पर बेचा जाता है कि बोलीदाता ने लॉट का निरीक्षण किया है और उन्हें पता है कि वे क्या खरीद रहे हैं। 'कैवियट एम्प्टर' का सिद्धांत लागू होगा और बिक्री के बाद कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। Sale of goods is purely on 'AS IS WHERE IS' condition basis. The goods shall be taken from the site with all faults or errors in description or otherwise, quantities, size, measurement, number, weight as stated in the lots. No warranty or guarantee shall be implied. The above goods are sold on the assumption that the bidders have inspected the lots and know what they are buying. The principle of 'caveat emptor' will apply and no complaint will be entertained after the sale.

संलग्न/Encl.As above.


20/03/25

(सुरेश कुमार सीमा/ SURESH KUMAR MEENA)
सीमा-शुल्क उप आयुक्त/DEPUTY COMMISSIONER OF CUSTOMS

To
The Notice Board, Customs Division, Tuticorin.

The Superintendent of Customs,
Customs Preventive Unit, Madurai /Kanyakumari/ Kulsekarapattinam/.
(With instruction to display in the Notice Boards)

Copy to:
The Deputy/Assistant Commissioner of Customs,

**Customs Division, Ramnad, Trichy, Cuddalore and Nagapattinam Divisions
(With a request to display in the Notice Boards)**


Copy submitted to:

1. **The Principal Commissioner of Customs, Trichy**
2. **The Commissioner of Customs, Custom House, Tuticorin (with a request to display on the notice board and also for publishing in the Website).**
3. **The Superintendent of Customs, Customs Policy/EDI., Hqrs., Trichy. (for publishing in the Website).**

ANNEXURE-I

[Annexure to Tender – Cum – Auction – Notice No. 02/2024-25 dated 29.03.2025]

| SI.No. | Case/O.R.No. | Description | Quantity (Kgs) | No of bags | Lying at |
|--------------|---------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 1 | OR 01/2024, 09.04.2024 | Beedi Leaves | 450 | 17 | Seized Goods Godown Custom Division, Tuticorin |
| 2 | OR 02/2024, 22.04.2024 | | 2686 | 84 | |
| 3 | OR 03/2024, 26.04.2024 | | 1320 | 42 | |
| 4 | OR 04/2024, 13.05.2024 | | 1330 | 44 | |
| 5 | OR 05/2024, 27.05.2024 | | 2550 | 84 | |
| 6 | OR 10/2024, 05.07.2024 | | 2460 | 82 | |
| 7 | OR 11/2024, 10.07.2024 | | 1569 | 40 | |
| 8 | OR 14/2024, 26.08.2024 | | 260 | 9 | |
| 9 | OR 15/2024-25, 06.09.2024 | | 664 | 21 | |
| 10 | OR 16/2024-25, 18.09.2024 | | 1320 | 37 | |
| 11 | OR 17/2024-25, 20.09.2024 | | 950 | 42 | |
| 12 | OR 18/2024-25, 26.09.2024 | | 90 | 3 | |
| 13 | OR 19/2024-25, 01.10.2024 | | 1046 | 33 | |
| TOTAL | | | 16695 kgs | 538 bags | |


30/03/25

(सुरेश कुमार मीना/ SURESH KUMAR MEENA)
सीमा-शुल्क उप आयुक्त/DEPUTY COMMISSIONER OF CUSTOMS